

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राज्यपाल

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 नवम्बर 2015—कार्तिक 18, शक 1937

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2015

क्र. एफ-3-7-2015-सत्रह-मेडि-1.—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को निर्दिष्ट अर्हताओं के अंतर्गत नीचे दिए गए शेड्यूल के कालम (2) के अनुसार शासकीय विश्लेषक नियुक्त करता है। औषधियों के वर्ग एवं प्रसाधन सामग्री के वर्ग कालम (3) एवं क्षेत्राधिकार कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट है :—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के वर्ग	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अनिल कुमार मर्सिकोले, सहायक विश्लेषक (औषधि), औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश भोपाल.	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत <sup>a</sup> अ-समस्त वर्गों की औषधियों [शेड्यूल सी एवं सी (1) में विनिर्दिष्ट औषधियां सहित] ब-समस्त प्रसाधन सामग्री	संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए
2.	सुश्री पूनम ईसरानी, सहायक औषधि विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश भोपाल.	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत <sup>a</sup> अ-समस्त वर्गों की औषधियों [शेड्यूल सी एवं सी (1) में विनिर्दिष्ट औषधियां सहित] ब-समस्त प्रसाधन सामग्री	संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए

No. F 3-7-2015-XVII-Medi-1.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government hereby appoints the following Officers having prescribed qualification, as specified in column (2) of Schedule given below, to be Government Analyst in respect of drugs or classes of drugs and cosmetics or classes of cosmetics as specified in column (3), for the areas specified in column (4) of the said schedule, namely :—

#### SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Officers (1)	Class of Drugs or cosmetics (2)	Area (4)
1.	Shri Anil Kumar Marskole, Assistant Analyst (Drug) Drug testing Laboratory, Food and Drugs Administration Madhya Pradesh, Bhopal.	(a) In respect of all classes of Drugs including Schedule C and C(1).  (b) All Cosmetics	For the whole State of Madhya Pradesh.
2.	Sushree Poonam Israni, Assistant Drug Analyst, Drug testing Laboratory, Food and Drugs Administration Madhya Pradesh, Bhopal.	(a) In respect of all classes of Drugs including Schedule C and C(1).  (b) All Cosmetics	For the whole State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सूरज डामोर, सचिव.